

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2—अगस्त 8, 2014 (श्रावण 11, 1936)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2—AUGUST 8, 2014 (SRAVANA 11, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2014

सेना शाखा

नं. 166, दिनांक 1 जुलाई 2014— राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

इन्फैंट्री

डोगरा रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बचन लाल

(जेसी 519968एच)

1 जनवरी 2013

सूबेदार सोम दत्त शर्मा

(जेसी 519999एच)

1 जनवरी 2013

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार नूरत राम	(जेसी 521192वाई)	+15 अप्रैल 2012
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2012 से ।		
नायब सूबेदार मनी राम	(जेसी 521204ए)	+24 दिसम्बर 2012
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 अगस्त 2012 से ।		
नायब सुरेंद्र कुमार	(जेसी 521216एक्स)	+10 जनवरी 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2012 से ।		
नायब सूबेदार दीना बन्धु	(जेसी 521268एन)	+30 नवम्बर 2012
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2012 से ।		
नायब सूबेदार बुधी सिंह ठाकुर	(जेसी 521313पी)	+5 दिसम्बर 2012
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2012 से ।		
नायब सूबेदार नानक चंद	(जेसी 521315ए)	+30 नवम्बर 2012
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2012 से ।		
नायब सूबेदार जुगल किशोर	(जेसी 521303एल)	+17 नवम्बर 2012
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2012 से ।		
नायब सूबेदार मलकीत सिंह	(जेसी 521056एच)	+14 दिसम्बर 2012
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2012 से ।		
नायब सूबेदार सतपाल	(जेसी 521305डब्ल्यू)	+18 दिसम्बर 2012
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2012 से ।		
नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार	(जेसी 521316एच)	+ 23 दिसम्बर 2012
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2012 से ।		
नायब सूबेदार बलदेव कृष्ण	(जेसी 521470एफ)	+18 जनवरी 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2012 से ।		
नायब सूबेदार भारत भूषण	(जेसी 521471के)	1 जनवरी 2013
नायब सूबेदार बलबीर चन्द	(जेसी 521474एक्स)	+1 फरवरी 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2013 से ।		

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार/लिपिक जोशी सूर्ती राम रनवीर	(जेसी 521474एक्स)	1 दिसम्बर 2012
--	-------------------	----------------

सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) शंकर दत्ता	(जेसी 520266डब्ल्यू)	+10 जून 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से ।		

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार हंस राज	(जेसी 520287एम)	1 जून 2013
-----------------	-----------------	------------

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मदन गोपाल	(जेसी 521306वाई)	+24 मई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अप्रैल 2013 से ।		
नायब सूबेदार राज कुमार शर्मा	(जेसी 520885के)	1 मई 2013

नायब सूबेदार विजय कुमार	(जेसी 521041ए)	+28 मई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2013 से ।		
नायब सूबेदार कृष्ण गोपाल शर्मा	(जेसी 521307एफ)	+28 मई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2013 से ।		
नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार	(जेसी 521330पी)	+24 मई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2013 से ।		
नायब सूबेदार विजय कुमार चमयाल	(जेसी 521358पी)	+15 मई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2013 से ।		
नायब सूबेदार सतीश कुमार	(जेसी 521359एक्स)	+15 मई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2013 से ।		
नायब सूबेदार विजय कुमार	(जेसी 520923पी)	+17 जून 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
सूबेदार लिपिक के रैंक में		
नायब सूबेदार (लिपिक) रामाज्ञा शर्मा	(जेसी 520933एन)	1 मई 2013
नायब सूबेदार (लिपिक) शशि कुमार ई	(जेसी 520994डब्ल्यू)	1 जून 2013
सूबेदार मेजर के रैंक में		
सूबेदार बासुदेव सिंह	(जेसी 520202एल)	1 अप्रैल 2013
सूबेदार सुरेंद्र सिंह	(जेसी 520129एक्स)	+2 मई 2013
+सूबेदार मेजर रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2013 से ।		
नायब सूबेदार सुरेंद्र कुमार बिष्ट	(जेसी 521124एल)	+7 जून 2012
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2012 से ।		
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह	(जेसी 521264एक्स)	+6 अप्रैल 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2013 से ।		
नायब पदम सिंह	(जेसी 520953एम)	+22 अप्रैल 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2013 से ।		
नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह	(जेसी 521356के)	+3 अप्रैल 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2013 से ।		
नायब सूबेदार केवल कृष्ण	(जेसी 521357एम)	+22 अप्रैल 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2013 से ।		
नायब सूबेदार बलवीर सिंह	(जेसी 521476एच)	+9 अप्रैल 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2013 से ।		
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह	(जेसी 521483वाई)	1 मई 2013
नायब सूबेदार राम पाल शर्मा	(जेसी 521501डब्ल्यू)	1 मई 2013
नायब सूबेदार माधो राम	(जेसी 521485के)	+7 मई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2013 से ।		
सूबेदार मेजर के रैंक में		
सूबेदार अनिल कुमार शर्मा	(जेसी 520541एल)	1 दिसम्बर 2013

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार वेद राम ठाकुर	(जेसी 521053पी)	+18 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार अमर सिंह	(जेसी 521073एच)	1 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार नरेंद्र कुमार	(जेसी 521274एफ)	+17 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
नायब सूबेदार संजय कुमार	(जेसी 521300एक्स)	+15 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
नायब सूबेदार राम लाल ठाकुर	(जेसी 521081एफ)	+29 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार तारा चन्द	(जेसी 521084पी)	+29 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार कमल कुमार	(जेसी 521136ए)	+30 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार कमल नयन, सेना मेडल	(जेसी 521138एल)	+16 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार शमशेर सिंह	(जेसी 521222एल)	+2 दिसम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार दीपक कुमार	(जेसी 521233एक्स)	+13 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार गोपाल सिंह	(जेसी 521275के)	+11 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार राजेंद्र कुमार	(जेसी 521421वाई)	1 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार परस राम	(जेसी 521310एफ)	+11 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार दुनी चन्द ठाकुर	(जेसी 521382एल)	+16 दिसम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार सरवन सिंह	(जेसी 521383एन)	+11 दिसम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार भूपिन्द्र सिंह	(जेसी 521123एच)	+16 दिसम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार रणधीर सिंह	(जेसी 521355एफ)	+21 दिसम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार विपन कुमार	(जेसी 521384डब्ल्यू)	+27 दिसम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार वेद प्रकाश	(जेसी 521389पी)	+11 दिसम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2013 से ।		

नायब सूबेदार प्राकम चन्द	(जेसी 521390के)	+18 दिसम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार हलकु राम	(जेसी 521391एम)	+14 दिसम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार राज कुमार	(जेसी 521461ए)	1 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार जैमल सिंह	(जेसी 521448डब्ल्यू)	+21 दिसम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार अश्वनी कुमार	(जेसी 521392पी)	+27 दिसम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 दिसम्बर 2013 से ।		
सूबेदार मेजर के रैंक में		
सूबेदार राजेश कुमार	(जेसी 520364डब्ल्यू)	1 जुलाई 2013
सूबेदार कुलदीप सिंह	(जेसी 520492एन)	1 अगस्त 2013
सूबेदार रंजीत सिंह	(जेसी 520393एल)	+2 नवम्बर 2013
+सूबेदार मेजर रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
सूबेदार के रैंक में		
नायब सूबेदार चैन सिंह	(जेसी 521147एम)	+12 अक्टूबर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 मई 2013 से ।		
नायब सूबेदार सुभाष चन्द	(जेसी 521252एच)	+13 अगस्त 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार रूप सिंह	(जेसी 521365एल)	+9 सितम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह	(जेसी 521487पी)	+14 अक्टूबर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार गोपाल सिंह	(जेसी 521100एफ)	+17 सितम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2013 से ।		
नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह नेगी	(जेसी 521221एच)	+14 सितम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2013 से ।		
नायब सूबेदार सोम राज	(जेसी 521075एन)	1 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार मुन्शी राम	(जेसी 521092एन)	+5 सितम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह	(जेसी 521179पी)	+25 सितम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार शमशेर सिंह	(जेसी 521201पी)	+18 सितम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार चुनी लाल	(जेसी 521297एच)	+14 सितम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार राज मल	(जेसी 521298एल)	+14 सितम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		

नायब सूबेदार नरेश कुमार सुन्ता	(जेसी 521345एक्स)	+29 सितम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार अवतार सिंह	(जेसी 521273 वाई)	+10 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 सितम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार बेली राम	(जेसी 521065के)	+25 सितम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 सितम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार मनोहर लाल	(जेसी 521052एम)	+6 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
नायब सूबेदार मदल लाल	(जेसी 521142एन)	+2 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
नायब सूबेदार रछपाल सिंह	(जेसी 521103पी)	+6 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
नायब सूबेदार अमर सिंह	(जेसी 521135एक्स)	1 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार प्रेम चंद ठाकुर	(जेसी 521214एम)	+23 अक्टूबर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
नायब सूबेदार भगत राम	(जेसी 521231एम)	+23 अक्टूबर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
नायब सूबेदार रतन चंद	(जेसी 521361पी)	1 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार रछपाल सिंह	(जेसी 521362एक्स)	1 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार सुरेश कुमार	(जेसी 521363ए)	1 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार ओम राज शर्मा	(जेसी 521364एच)	1 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार राकेश कुमार	(जेसी 521049एम)	+12 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार किशोरी लाल	(जेसी 521101के)	+1 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र	(जेसी 521180के)	+8 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार रवि कुमार	(जेसी 521202एक्स)	+6 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार बुधी सिंह	(जेसी 521241डब्ल्यू)	+7 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार राम लाल	(जेसी 521276एम)	+10 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार परमोद सिंह	(जेसी 521293एम)	+12 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार मान सिंह	(जेसी 521327पी)	+6 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार अनिल कुमार	(जेसी 521314एक्स)	+7 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		

नायब सूबेदार देश राज ठाकुर	(जेसी 521328एक्स)	+7 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार राज कुमार	(जेसी 521342के)	+6 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार हीरा सिंह	(जेसी 521343एम)	+6 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार रवि कांत	(जेसी 521373के)	+5 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार बलवान सिंह	(जेसी 521374एम)	+3 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार त्रिभुवन सिंह	(जेसी 521375पी)	+3 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार बाल चंद	(जेसी 521376एक्स)	+6 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार कुशल सिंह	(जेसी 521377ए)	+3 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार राज कुमार	(जेसी 521378एच)	+3 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार कमल किशोर	(जेसी 521380ए)	+3 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
सूबेदार मेजर के रैंक में		
सूबेदार प्यारे लाल	(जेसी 520217एन)	+8 अगस्त 2013
+सूबेदार मेजर रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2013 से ।		
सूबेदार दत्ता राम कश्यप	(जेसी 520618एच)	1 अगस्त 2013
सूबेदार राज कुमार	(जेसी 520468एक्स)	1 सितम्बर 2013
सूबेदार के रैंक में		
नायब सूबेदार दलीप सिंह जसवाल	(जेसी 521338एफ)	+31 अगस्त 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2013 से ।		
नायब सूबेदार वीर चन्द	(जेसी 521045डब्ल्यू)	+24 जुलाई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2013 से ।		
नायब सूबेदार धर्म चन्द	(जेसी 520895एन)	+5 जुलाई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार	(जेसी 520913एल)	+8 जुलाई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार रमेश चन्द	(जेसी 520918के)	+2 जुलाई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		

नायब सूबेदार हेम सिंह	(जेसी 521002एफ)	+19 जुलाई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार उत्तम चन्द	(जेसी 521006एक्स)	+17 जुलाई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह	(जेसी 521149एक्स)	+7 अगस्त 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह राठौर	(जेसी 521196पी)	+23 अगस्त 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार प्रभात सिंह	(जेसी 521210डब्ल्यू)	+19 अगस्त 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार ज्ञान चन्द	(जेसी 521366एन)	+24 अगस्त 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार राम सिंह	(जेसी 521486एम)	+31 अगस्त 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार शिव चन्द	(जेसी 521004एम)	+5 सितम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2013 से ।		
नायब सूबेदार परस राम	(जेसी 521062डब्ल्यू)	+29 अगस्त 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जुलाई 2013 से ।		
नायब सूबेदार अशविन्दर कुमार	(जेसी 521140एच)	+24 जुलाई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जुलाई 2013 से ।		
नायब सूबेदार दिने राम	(जेसी 521047एफ)	+9 अगस्त 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2013 से ।		
नायब सूबेदार बच्चन लाल शर्मा	(जेसी 521038ए)	+7 अगस्त 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2013 से ।		
नायब सूबेदार नेत्र चन्द	(जेसी 521195एम)	+11 सितम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2013 से ।		
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	(जेसी 521091एल)	+2 सितम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार देश राज	(जेसी 521129के)	+5 सितम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
सूबेदार लिपिक के रैंक में		
नायब सूबेदार/लिपिक बागुल अन्ना राम चन्द्र	(जेसी 520840के)	+13 जुलाई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2013 से ।		
नायब सूबेदार/लिपिक अनिल कुमार	(जेसी 520996एफ)	1 अगस्त 2013
नायब सूबेदार/लिपिक मुहम्मद इजहार शरीफ	(जेसी 521011एच)	+5 अक्टूबर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार ज्योति प्रकाश, सेना मेडल (जेसी 520661के) +3 अक्टूबर 2013

+सूबेदार मेजर रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।

सूबेदार ज्योति प्रकाश शर्मा (जेसी 520141वाई) +3 दिसम्बर 2013

+सूबेदार मेजर रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2013 से ।

सूबेदार मोहन सिंह (जेसी 520280एच) 1 दिसम्बर 2013

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पवन सिंह (जेसी 521010ए) +30 सितम्बर 2013

+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।

नायब सूबेदार रगबिंदर सिंह (जेसी 521111एन) +26 अक्टूबर 2013

+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।

नायब सूबेदार सुख देव राज (जेसी 521162एफ) +26 अक्टूबर 2013

+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।

नायब सूबेदार राम नाथ (जेसी 521197एक्स) +20 नवम्बर 2013

+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।

नायब सूबेदार मंजीत सिंह जमवाल (जेसी 520926एच) +25 नवम्बर 2013

+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।

नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी 520971पी) +2 दिसम्बर 2013

+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।

नायब सूबेदार शंभू दत्त (जेसी 521191डब्ल्यू) 1 नवम्बर 2013

नायब सूबेदार अश्वनी कुमार राणा (जेसी 521207डब्ल्यू) 1 नवम्बर 2013

नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार (जेसी 521208वाई) 1 नवम्बर 2013

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी 521242वाई) +4 दिसम्बर 2013

+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।

नायब सूबेदार हेम चंद (जेसी 521213के) +29 नवम्बर 2013

+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।

नायब सूबेदार अनूप सिंह (जेसी 521232पी) +10 नवम्बर 2013

+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।

नायब सूबेदार बालक राम (जेसी 521254एन) +19 नवम्बर 2013

+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।

नायब सूबेदार पवन कुमार चौधरी (जेसी 521277पी) +20 नवम्बर 2013

+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।

नायब सूबेदार कृष्ण चन्द (जेसी 521278एक्स) +10 नवम्बर 2013

+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी 521295एक्स) +10 नवम्बर 2013

+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।

नायब सूबेदार सुभाष चंद्र	(जेसी 521317एल)	+10 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार बलविंदर सिंह चौधरी	(जेसी 521331एक्स)	1 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार बिरी सिंह	(जेसी 521353डब्ल्यू)	+10 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार भूपेंद्र सिंह	(जेसी 521379एल)	+2 नवम्बर 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
नायब सूबेदार परमजीत सिंह	(जेसी 521504के)	1 दिसम्बर 2013
सूबेदार लिपिक के रैंक में		
नायब सूबेदार/लिपिक मुरलीधरन सी के	(जेसी 521032के)	1 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार/लिपिक गायकवाड संजय काशीनाथ	(जेसी 521039एच)	1 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार/लिपिक विनोद कुमार	(जेसी 521060एल)	1 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार/लिपिक नरेश्वर सहारिया	(जेसी 521079के)	1 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार/लिपिक विनोद कुमार	(जेसी 521080वाई)	1 नवम्बर 2013
सूबेदार मेजर के रैंक में		
सूबेदार सुरेश कुमार	(जेसी 519613एक्स)	+2 मई 2013
+सूबेदार मेजर रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2013 से ।		
सूबेदार जगदीप सिंह	(जेसी 520293ए)	+3 जुलाई 2013
+सूबेदार मेजर रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2013 से ।		
सूबेदार राकेश भारद्वाज	(जेसी 520352एफ)	1 जुलाई 2013
सूबेदार जसवंत सिंह	(जेसी 520369पी)	+2 जुलाई 2013
+सूबेदार मेजर रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2013 से ।		
सूबेदार हरबसं लाल	(जेसी 520437एक्स)	+4 जुलाई 2013
+सूबेदार मेजर रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2013 से ।		
सूबेदार जय करण	(जेसी 520456एच)	1 जुलाई 2013
सूबेदार सुनील कुमार	(जेसी 520195ए)	22 जुलाई 2013
सूबेदार के रैंक में		
नायब सूबेदार अमरजीत सिंह	(जेसी 521450एन)	+17 जुलाई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2013 से ।		
नायब सूबेदार राज कुमार	(जेसी 520956ए)	+23 मई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2013 से ।		
नायब सूबेदार जीवन कुमार	(जेसी 520831एच)	+22 जून 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार प्रवीण सिंह	(जेसी 520916वाई)	+22 जून 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार जीत सिंह	(जेसी 520997के)	+26 जून 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		

नायब सूबेदार कमलेश कुमार	(जेसी 520998एम)	+22 जून 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार बुआ दित्ता	(जेसी 521005पी)	+22 जून 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार नील कुमार	(जेसी 521009एल)	+9 जुलाई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार रोमेश चन्द्र	(जेसी 521061एन)	+2 जुलाई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार सरदारी लाल	(जेसी 521083एम)	+6 जुलाई 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार विपन कुमार, सेना मेडल	(जेसी 521334एल)	+28 जून 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार अश्वनी कुमार	(जेसी 521360एम)	+28 जून 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह राणा	(जेसी 521488एक्स)	+20 जून 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार स्वरूप चन्द	(जेसी 521502वाई)	1 जुलाई 2013

सूबेदार मेजर धर्म शिक्षक के रैंक में

सूबेदार/धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी	(जेसी 160677के)	1 मार्च 2013
सूबेदार/धर्म शिक्षक सूर्य प्रकाश तिवारी	(जेसी 164331एक्स)	1 मार्च 2013
सूबेदार/धर्म शिक्षक रामायण प्रसाद	(जेसी 164332ए)	+13 मार्च 2013
+सूबेदार मेजर रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से ।		
सूबेदार/धर्म शिक्षक तिलक राज शर्मा	(जेसी 164330पी)	+7 मई 2013
+सूबेदार मेजर रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से ।		

सूबेदार धर्म शिक्षक के रैंक में

नायब सूबेदार/धर्म शिक्षक भरतजी द्विवेदी	(जेसी 519457वाई)	+9 जून 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार/धर्म शिक्षक मोहन नाथ तिवारी	(जेसी 519458एफ)	+3 जून 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से ।		

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राजेश कुमार	(जेसी 521057एल)	+9 फरवरी 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2012 से ।		
नायब सूबेदार जगीर सिंह	(जेसी 521068एक्स)	+26 फरवरी 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2013 से ।		
नायब सूबेदार नरेंद्र कुमार	(जेसी 521121एक्स)	+11 फरवरी 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2013 से ।		

नायब सूबेदार ओंकार सिंह	(जेसी 521291एफ)	+9 फरवरी 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2013 से ।		
नायब सूबेदार देवेंद्र सिंह	(जेसी 521292के)	+22 फरवरी 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2013 से ।		
नायब सूबेदार सूरज प्रकाश, सेना मेडल	(जेसी 520929डब्ल्यू)	1 मार्च 2013
सूबेदार लिपिक के रैंक में		
नायब सूबेदार/लिपिक कुंवर सूर्य पी एस भदुरिया	(जेसी 520992एल)	1 मार्च 2013
सूबेदार के रैंक में		
नायब सूबेदार देवी चन्द	(जेसी 521326एम)	+30 जनवरी 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2012 से ।		
नायब सूबेदार केशव राम	(जेसी 521046वाई)	+3 दिसम्बर 2012
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2012 से ।		
नायब सूबेदार जय सिंह	(जेसी 521066एम)	+21 फरवरी 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2013 से ।		
नायब सूबेदार उत्तम सिंह	(जेसी 521120पी)	+18 फरवरी 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2013 से ।		
नायब सूबेदार भाग देव राठौर	(जेसी 521172एल)	+12 अप्रैल 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2013 से ।		
नायब सूबेदार बबिन्दर सिंह गुलेरिया	(जेसी 521288एफ)	+25 फरवरी 2013
+सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2013 से ।		
नायब सूबेदार प्रदीप चंदेल	(जेसी 521286 डब्ल्यू)	14 मार्च 2013
सूबेदार लिपिक के रैंक में		
नायब सूबेदार/लिपिक जितेंद्र सिंह	(जेसी 520972एक्स)	1 फरवरी 2013
नायब सूबेदार/लिपिक सुभाष यादव	(जेसी 520991एच)	1 मार्च 2013
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार होशियार सिंह	(3998890एक्स अब जेसी 521641एच)	+22 मार्च 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मई 2012 से ।		
हवलदार अश्वनी कुमार	(3990737एम अब जेसी 521642एल)	+1 मार्च 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 जुलाई 2012 से ।		
हवलदार जुगल किशोर	(3990822पी अब जेसी 521643एन)	+28 फरवरी 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 सितम्बर 2012 से ।		
हवलदार धीर मल	(3992664के अब जेसी 521644डब्ल्यू)	+7 मार्च 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 दिसम्बर 2012 से ।		
हवलदार जगरूप सिंह	(3990569वाई अब जेसी 521645वाई)	+25 फरवरी 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2013 से ।		
हवलदार स्वरूप सिंह	(3992843के अब जेसी 521646एफ)	+12 अप्रैल 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2013 से ।		

हवलदार दलेर सिंह	(3989016डब्ल्यू अब जेसी 521647के)	+2 मार्च 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2013 से ।		
हवलदार राजीव कुमार	(3990320एम अब जेसी 521648एम)	+14 मार्च 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2013 से ।		
हवलदार प्रकाश चंद	(3990333के अब जेसी 521649पी)	14 मार्च 2013
नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में		
हवलदार/लिपिक राम बिशुन यादव	(3992648एम अब जेसी 521650के)	1 मार्च 2013
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार राकेश चंद	(3989919एन अब जेसी 521651एम)	+28 मार्च 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 फरवरी 2013 से ।		
हवलदार कुलदीप सिंह	(3991135एल अब जेसी 521652पी)	+10 अप्रैल 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 फरवरी 2013 से ।		
हवलदार रविंदर कुमार	(3991177एक्स अब जेसी 521653एक्स)	+10 अप्रैल 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 फरवरी 2013 से ।		
हवलदार वीरेंद्र सिंह	(3990612पी अब जेसी 521654ए)	+21 मार्च 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 फरवरी 2013 से ।		
हवलदार अर्जुन सिंह	(3992863एक्स अब जेसी 521655एच)	+22 अप्रैल 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 फरवरी 2013 से ।		
हवलदार जगदीश कुमार	(3989030एच अब जेसी 521656एल)	+20 अप्रैल 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2013 से ।		
हवलदार रवि कुमार	(3990526के अब जेसी 521657एन)	+18 अप्रैल 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 7 मार्च 2013 से ।		
हवलदार ओंकार सिंह	(3990650एल अब जेसी 521658डब्ल्यू)	+18 अप्रैल 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 मार्च 2013 से ।		
हवलदार सुरेंद्र पाल	(3989059एल अब जेसी 521659वाई)	+18 अप्रैल 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2013 से ।		
हवलदार कमलेश कुमार	(3991198एन अब जेसी 521660एन)	+10 अप्रैल 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2013 से ।		
हवलदार तरसेम जब	(3989892एफ अब जेसी 521661डब्ल्यू)	1 मई 2013
हवलदार गेसर चंद	(3991208एम अब जेसी 521662वाई)	1 मई 2013
हवलदार नरेंद्र सिंह	(3991230एक्स अब जेसी 521663एफ)	1 मई 2013
हवलदार सतीश कुमार	(3991263एच अब जेसी 521664के)	+7 मई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2013 से ।		
हवलदार संजीव सिंह	(4003065एक्स अब जेसी 521666पी)	+21 मार्च 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 2012 से ।		

हवलदार जोगिन्द्र सिंह	(3990921एक्स अब जेसी 521667एक्स)	+21 अप्रैल 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 मार्च 2013 से ।		
हवलदार रवि कुमार सैनी	(3990313डब्ल्यू अब जेसी 521668ए)	+17 जून 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अप्रैल 2013 से ।		
हवलदार पवन कुमार	(3992907के अब जेसी 521669एच)	+24 मई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अप्रैल 2013 से ।		
हवलदार सुशील चन्द कटोच	(3991352एफ अब जेसी 521670एक्स)	+20 मई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अप्रैल 2013 से ।		
हवलदार दिलबाग सिंह	(3988941एम अब जेसी 521671ए)	+20 मई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2013 से ।		
हवलदार पमिल कुमार	(3990926डब्ल्यू अब जेसी 521672एच)	1 मई 2013
हवलदार राजिन्द्र सिंह	(3990170एफ अब जेसी 521673एल)	1 मई 2013
हवलदार चैन सिंह	(3990985एच अब जेसी 521674एन)	1 मई 2013
हवलदार विनोद कुमार	(3989928पी अब जेसी 521675डब्ल्यू)	1 मई 2013
हवलदार इकबाल सिंह	(3990138एम अब जेसी 521676वाई)	+21 मई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 मई 2013 से ।		
हवलदार गुरबक्स सिंह	(3988954के अब जेसी 521677एफ)	+17 जून 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
हवलदार बलवान सिंह	(3990725एक्स अब जेसी 521678के)	+8 जून 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में		
हवलदार/लिपिक कमलजीत सिंह	(3992788वाई अब जेसी 521665एम)	1 मई 2013
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार अमरजीत सिंह	(3991140डब्ल्यू अब जेसी 521680एफ)	+12 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2013 से ।		
हवलदार रविंदर सिंह	(3992911एम अब जेसी 521681के)	+18 जून 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2013 से ।		
हवलदार कुलदीप सिंह	(3989780एफ अब जेसी 521682एम)	+13 जून 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मई 2013 से ।		
हवलदार सुभ करण सिंह	(3394439डब्ल्यू अब जेसी 521683पी)	+22 जून 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
हवलदार अनिल कुमार	(3989788एन अब जेसी 521684एक्स)	+6 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
हवलदार अजमेर सिंह	(3988906के अब जेसी 521685ए)	+22 जून 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
हवलदार मोहिन्दर सिंह	(3990687एम अब जेसी 521686एच)	+28 जून 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		

हवलदार संजय परमार	(2990372एम अब जेसी 521687एल)	+26 जून 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
हवलदार जगजीत सिंह	(2990392ए अब जेसी 521688एन)	+26 जून 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
हवलदार काबल सिंह	(3184311एन अब जेसी 521689डब्ल्यू)	+29 जून 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
हवलदार बलदेव सिंह	(3989918एल अब जेसी 521690एल)	1 जून 2013
हवलदार मंगल सिंह मन्हास	(3991405पी अब जेसी 521691एन)	+24 जून 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
हवलदार जगदीश कुमार	(3992947एल अब जेसी 521692डब्ल्यू)	+14 जून 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
हवलदार नसीब सिंह	(3991269के अब जेसी 521693वाई)	+20 जून 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 जून 2013 से ।		
हवलदार विपिन कुमार	(3989790एल अब जेसी 521694एफ)	+15 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2013 से ।		
हवलदार अजय सिंह	(3991278एल अब जेसी 521695के)	1 जुलाई 2013
हवलदार राजेश कुमार	(3991316डब्ल्यू अब जेसी 521696एम)	+9 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2013 से ।		
नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में		
हवलदार/लिपिक हर्षन टी के	(3992789एफ अब जेसी 521679एम)	1 जून 2013
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार मदन लाल	(3990210एक्स अब जेसी 521697पी)	+21 अगस्त 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अक्टूबर 2012 से ।		
हवलदार गोबिन्द राम	(3991115एक्स अब जेसी 521698एक्स)	+30 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अप्रैल 2013 से ।		
हवलदार केवल सिंह	(3991123डब्ल्यू अब जेसी 521699ए)	+21 अगस्त 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अप्रैल 2013 से ।		
हवलदार जगदीश सिंह	(3991116ए अब जेसी 521700के)	+29 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मई 2013 से ।		
हवलदार यंग बहादुर	(3991138वाई अब जेसी 521701एम)	+29 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मई 2013 से ।		
हवलदार चमन लाल चौहान	(2990591एन अब जेसी 521702पी)	+9 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
हवलदार बलबीर सिंह	(3990152वाई अब जेसी 521703एक्स)	+19 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
हवलदार संसार सिंह	(3991142एफ अब जेसी 521704ए)	+29 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		

हवलदार मंजीत सिंह भडवाल	(3990990एन अब जेसी 521705एच)	+8 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
हवलदार राजिन्दर सिंह	(3991163एक्स अब जेसी 521706एल)	+29 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जून 2013 से ।		
हवलदार राजिन्दर सिंह	(3991439एच अब जेसी 521707एन)	+29 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2013 से ।		
हवलदार राजेश्वर सिंह	(3989131डब्ल्यू अब जेसी 521708 डब्ल्यू)	+5 अगस्त 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 जुलाई 2013 से ।		
हवलदार जय कर्ण	(13619031एम अब जेसी 521709वाई)	+5 अगस्त 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जुलाई 2013 से ।		
हवलदार राज केशिव	(3990851के अब जेसी 521710एन)	+21 अगस्त 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जुलाई 2013 से ।		
हवलदार विरेन्द्र सिंह, सेना मेडल	(3995684एच अब जेसी 521711डब्ल्यू)	+24 अगस्त 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जुलाई 2013 से ।		
हवलदार इन्द्र जीत	(3990284एम अब जेसी 521712वाई)	+14 अगस्त 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से ।		
हवलदार मदन गोपाल	(3989227वाई अब जेसी 521713एफ)	+5 अगस्त 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2013 से ।		
हवलदार रमेश कुमार	(3989795के अब जेसी 521714के)	+7 अगस्त 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 अगस्त 2013 से ।		
हवलदार मंजीत सिंह	(3989809वाई अब जेसी 521715एम)	+7 अगस्त 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 अगस्त 2013 से ।		
हवलदार चमन लाल	(3991102ए अब जेसी 521716पी)	+2 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
हवलदार दिलबाग सिंह	(3990438एन अब जेसी 521723एल)	+5 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जून 2013 से ।		
हवलदार यशवन्त सिंह	(3990447पी अब जेसी 521724एन)	+5 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2013 से ।		
हवलदार राज कुमार	(3993032एल अब जेसी 521725डब्ल्यू)	+5 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जुलाई 2013 से ।		
हवलदार सुरेन्द्र सिंह	(3990636वाई अब जेसी 521726वाई)	+5 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
हवलदार किशोरी लाल	(3990287ए अब जेसी 521727एफ)	1 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में		
हवलदार/लिपिक सुरेन्द्र कुमार	(3992791वाई अब जेसी 521717एक्स)	+20 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2013 से ।		

हवलदार/लिपिक रविन्दर कुमार	(3992981एल अब जेसी 521718ए)	+23 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2013 से ।		
हवलदार/लिपिक अशोक कुमार	(3993225एल अब जेसी 521719एल)	+31 जुलाई 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2013 से ।		
हवलदार/लिपिक बी जग्गा राव	(3993347पी अब जेसी 521720एक्स)	+2 अगस्त 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2013 से ।		
हवलदार/लिपिक संजय कुमार पटियाल	(3993211एल अब जेसी 521721ए)	1 अगस्त 2013
हवलदार/लिपिक कौलगे तानाजी भानुदास	(3993581एल अब जेसी 521722एच)	1 अगस्त 2013
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार पर्षोत्तम लाल	(3989595एन अब जेसी 521728के)	+3 अगस्त 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
हवलदार हुकम चंद	(3990992वाई अब जेसी 521729एम)	+7 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2013 से ।		
हवलदार विरेन्द्र कुमार	(3991418एम अब जेसी 521730एफ)	+14 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जुलाई 2013 से ।		
हवलदार प्रकाश चंद	(3991425एच अब जेसी 521731के)	+14 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2013 से ।		
हवलदार संतोख सिंह	(3989687ए अब जेसी 521732एम)	+18 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
हवलदार प्रदीप कुमार	(3989787पी अब जेसी 521733पी)	+18 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
हवलदार प्रदीप सिंह	(3990589एम अब जेसी 521734एक्स)	1 सितम्बर 2013
हवलदार राजेश कुमार गुलेरिया	(3991151एच अब जेसी 521735ए)	1 सितम्बर 2013
हवलदार टेक चंद	(3991209पी अब जेसी 521736एच)	+11 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
हवलदार प्रकाश चंद	(3991228ए अब जेसी 521737एल)	1 सितम्बर 2013
हवलदार चेत राम चौहान	(3991445डब्ल्यू अब जेसी 521738एन)	+14 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
हवलदार ब्यास देव ठाकुर	(3991449एम अब जेसी 521739डब्ल्यू)	+12 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
हवलदार शिव कुमार	(3991107वाई अब जेसी 521740एल)	+5 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 सितम्बर 2013 से ।		
हवलदार सिकन्दर सिंह	(3990289एल अब जेसी 521741एन)	+25 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 सितम्बर 2013 से ।		
हवलदार बलवंत सिंह, सेना मेडल	(3996293के अब जेसी 521742डब्ल्यू)	+28 सितम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 6 सितम्बर 2013 से ।		

हवलदार तरशेम सिंह	(3991515के अब जेसी 521743वाई)	+5 अक्टूबर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2013 से ।		
हवलदार गर्जन सिंह	(3989870एच अब जेसी 521744एफ)	+23 अक्टूबर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 सितम्बर 2013 से ।		
हवलदार शाम लाल	(3990015ए अब जेसी 521745के)	+10 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2013 से ।		
हवलदार तरपेम लाल	(3989899एल अब जेसी 521746एम)	+10 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2013 से ।		
हवलदार कर्म सिंह	(3989873डब्ल्यू अब जेसी 521747पी)	+23 अक्टूबर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार विश्वा मित्र	(3990038एफ अब जेसी 521748एक्स)	+23 अक्टूबर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार संतोष कुमार राणा	(3990109एक्स अब जेसी 521749ए)	+6 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार कुलदीप चंद	(3990900एफ अब जेसी 521750पी)	+6 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार गुरबकस सिंह	(3991114पी अब जेसी 521751एक्स)	+6 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार कमल कुमार	(3990456डब्ल्यू अब जेसी 521752ए)	+23 अक्टूबर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार शेर सिंह चंदेल	(3991575वाई अब जेसी 521753एच)	+26 अक्टूबर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार प्रवीण सिंह	(3991711के अब जेसी 521754एल)	+26 अक्टूबर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार बंसी लाल	(2990710वाई अब जेसी 521755एन)	+12 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार दौलत सिंह	(3991262ए अब जेसी 521756डब्ल्यू)	+6 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार धन देव	(3991290एम अब जेसी 521757वाई)	+6 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार सुखवीर सिंह	(3990458एफ अब जेसी 521758एफ)	+3 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार हेम राज	(3990586वाई अब जेसी 521759के)	+3 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार हंश राज	(4361328पी अब जेसी 521760वाई)	+3 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		

हवलदार बलविन्दर सिंह	(3990391एन अब जेसी 521761एफ)	+3 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार सुभाष चंद	(3991384के अब जेसी 521762के)	+6 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार कुमेर चंद	(3991683एच अब जेसी 521763एम)	+6 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार सुख राम	(3991705डब्ल्यू अब जेसी 521764पी)	+6 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार गुरदयाल सिंह	(3991185डब्ल्यू अब जेसी 521765एक्स)	+3 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार राजेश कुमार	(3991190एफ अब जेसी 521766ए)	+3 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार ओंकार सिंह	(3990444एफ अब जेसी 521767एच)	+10 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार विजय कुमार	(3991455ए अब जेसी 521768एल)	+7 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार सुखविंदर ठाकुर	(3991464एफ अब जेसी 521769एन)	+7 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार मलकीत सिंह, सेना मेडल	(3990531पी अब जेसी 521770एच)	+10 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार मनोज कुमार	(3991441ए अब जेसी 521771एल)	1 नवम्बर 2013
हवलदार कमल किशोर	(3989695वाई अब जेसी 521772एन)	1 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार अश्वनी कुमार	(3990759एल अब जेसी 521773डब्ल्यू)	+16 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार किशोर कुमार	(3991523एच अब जेसी 521774वाई)	+26 अक्टूबर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार दलजीत सिंह	(3991594के अब जेसी 521775एफ)	+26 अक्टूबर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार आनन्द कुमार	(3991020एक्स अब जेसी 521776के)	+18 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार वरेंद्र कुमार	(3991609एफ अब जेसी 521777एम)	+26 अक्टूबर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार बालक राम ठाकुर	(3990367एक्स अब जेसी 521778पी)	+13 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		

हवलदार मनोहर लाल	(3990312एन अब जेसी 521779एक्स)	+10 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार राजेश कुमार	(3990560के अब जेसी 521780एम)	+10 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार विनोद कुमार	(3990837एक्स अब जेसी 521781पी)	+16 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार कृष्ण लाल राठौर	(3990831डब्ल्यू अब जेसी 521782एक्स)	+4 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार राकेश कुमार	(3991636एल अब जेसी 521783ए)	1 नवम्बर 2013
हवलदार सुभाष चंद	(3990642एम अब जेसी 521784एच)	+10 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार सत पाल	(3990224एक्स अब जेसी 521785एल)	+23 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार दवेन्द्र सिंह	(3990726ए अब जेसी 521786एन)	+10 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार जोगेन्द्र पाल	(3990996पी अब जेसी 521787डब्ल्यू)	+4 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार मधर सिंह	(3991715ए अब जेसी 521788वाई)	1 नवम्बर 2013
हवलदार विनोद कुमार	(3991734एल अब जेसी 521789एफ)	+19 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार अनिल कुमार	(3990755पी अब जेसी 521790डब्ल्यू)	+10 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार हरनेक सिंह	(3990860एल अब जेसी 521791वाई)	+10 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार तरसेम सिंह	(3991729ए अब जेसी 521792एफ)	+1 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में		
हवलदार/लिपिक दिनेसन के	(3993616डब्ल्यू अब जेसी 521793के)	+11 अक्टूबर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार/लिपिक लक्ष्मीधर प्रधान	(3992334एल अब जेसी 521794एम)	1 नवम्बर 2013
हवलदार/लिपिक चंद्र नारायण तिवारी	(3992532डब्ल्यू अब जेसी 521795पी)	1 नवम्बर 2013
हवलदार/लिपिक बबन ठाकुर	(3994280एन अब जेसी 521796एक्स)	1 नवम्बर 2013
हवलदार/लिपिक हर नारायण गौर	(3994729एल अब जेसी 521797ए)	1 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार जय लाल	(3989842डब्ल्यू अब जेसी 521798एच)	+9 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		
हवलदार रंजीत सिंह	(3991010एन अब जेसी 521799एल)	+29 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2013 से ।		

हवलदार महेन्द्र सिंह	(3990358डब्ल्यू अब जेसी 521800पी)	+29 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार राज कुमार	(3990416पी अब जेसी 521801एक्स)	+30 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अक्टूबर 2013 से ।		
हवलदार कश्मीरा	(3990825एच अब जेसी 521802ए)	+29 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार मेध राम शर्मा	(3990834के अब जेसी 521803एच)	+29 नवम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार गगन राज	(3991356एक्स अब जेसी 521804एल)	+2 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार शीशपाल सिंह, एस सी	(3989713डब्ल्यू अब जेसी 521805एन)	+4 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार प्रवीण चन्द्र	(3990436एच अब जेसी 521806डब्ल्यू)	+11 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार राजेश कुमार	(3990454एल अब जेसी 521807वाई)	+11 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार सुभाष कुमार	(3989877एम अब जेसी 521808एफ)	+2 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार अश्वनी कुमार	(3989539पी अब जेसी 521809के)	+21 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार रमेश सिंह	(2990806एफ अब जेसी 521810वाई)	+16 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 नवम्बर 2013 से ।		
हवलदार सुभाष चन्द्र	(3990672के अब जेसी 521811एफ)	+11 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2013 से ।		
हवलदार संजय कुमार	(3991752एन अब जेसी 521812के)	+7 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2013 से ।		
हवलदार रंजीत सिंह	(3990871एक्स अब जेसी 521813एम)	+24 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2013 से ।		
हवलदार शक्ति चन्द्र	(3990924एल अब जेसी 521814पी)	+24 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2013 से ।		
हवलदार रोशन लाल	(3990638के अब जेसी 521815एक्स)	+11 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 दिसम्बर 2013 से ।		
हवलदार पवन कुमार	(3990582एच अब जेसी 521816ए)	+30 दिसम्बर 2013
+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2013 से ।		

वी एन रविन्द्रन
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 2nd August 2014

ARMY BRANCH

No. 166, dated the 1st July 2014—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub	Bachan Lal	JC-519968H	1 st Jan 13
Sub	Som Dutt Sharma	JC-519999H	1 st Jan 13

To be Sub

Nb Sub	Nurat Ram	JC-521192Y	+15 th Apr 12
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Mar 12 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Mani Ram	JC-521204H	+24 th Dec 12
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 5 th Aug 12 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Surender Kumar	JC-521216X	+10 th Jan 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Sep 12 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Dina Bandhu	JC-521268N	+30 Nov 12
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 12 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Budhi Singh Thakur	JC-521313P	+5 th Dec 12
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 12 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Nank Chand	JC-521315A	+30 Nov 12
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 12 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Jugal Kishore	JC-521303L	+17 th Nov 12
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 12 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Malkeet Singh	JC-521056H	+14 th Dec 12
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 12 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Satpal	JC-521305W	+18 th Dec 12
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 12 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Rajinder Kumar	JC-521316H	+23 rd Dec 12
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 12 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Baldev Krishan	JC-521470F	+18 th Jan 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 12 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Bharat Bhushan	JC-521471K	1 st Jan 13
Nb Sub	Balbir Chand	JC-521474X	+1 st Feb 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jan 13 without effect on Pay & Allowances.			

To be Sub Clerk (SD)

Nb Sub/Clk Joshi Surti Ram Ranveer JC-521474X 1st Dec 12

To be Sub Maj Clerk (SD)

Sub/Clk Sankar Datta JC-520266W +10 Jun 13

+Granted seniority in the rank of Sub Maj (Clk) (SD) with effect from 01 Jun 13 without effect on Pay & Allowances.

To be Sub Maj

Sub Hans Raj JC-520287M 1st Jun 13

To be Sub

Nb Sub Madan Gopal JC-521306Y +24 May 13

+Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 28 Apr 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Raj Kumar Sharma JC-520885K 1st May 13

Nb Sub Vijay Kumar JC-521041A +28th May 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Krishan Gopal Sharma JC-521307F +28 May 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Davender Kumar JC-521330P +24th May 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Vijay Kumar Chamyal JC-521358P +15th May 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Satish Kumar JC-521359X +15th May 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Vijay Kumar JC-520923P +17th Jun 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.

To be Sub Clerk (SD)

Nb Sub/Clk Ramagya Sharma JC-520933N 1st May 13

Nb Sub/Clk Sasi Kumar E JC-520994W 1st Jun 13

To be Sub Maj

Sub Basudev Singh JC-520202L 1st Apr 13

Sub Surender Singh JC-520129X +2nd May 13

+Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1st May 13 without effect on Pay & Allowances

To be Sub

Nb Sub Suriender Kumar Bist JC-521124L +7th Jun 12

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 12 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Mohinder Singh JC-521264X +6th Apr 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Mar 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Padam Singh JC-520953M +22nd Apr 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Apr 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub	Rajender Singh	JC-521356K	+3 rd Apr 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Apr 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Kewal Krishan	JC-521357M	+22 nd Apr 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Apr 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Balvir Singh	JC-521476H	+9 th Apr 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Apr 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Mahinder Singh	JC-521483Y	1 st May 13
Nb Sub	Ram Paul Sharma	JC-521501W	1 st May 13
Nb Sub	Madho Ram	JC-521485K	+7 th May 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st May 13 without effect on Pay & Allowances.			
To be Sub Maj			
Sub	Anil Kumar Sharma	JC-520541L	1 st Dec 13
To be Sub			
Nb Sub	Ved Ram Thakur	JC-521053P	+18 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Sep 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Amar Singh	JC-521073H	1 st Sep 13
Nb Sub	Narender Kumar	JC-521274F	+17 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Sanjay Kumar	JC-521300X	+15 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Ram Lal Thakur	JC-521081F	+29 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Tara Chand	JC-521084P	+29 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Kamal Kumar	JC-521136A	+30 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Kamal Nayan, SM	JC-521138L	+16 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Shamsher Singh	JC-521222L	+2 nd Dec 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Deepak Kumar	JC-521233X	+13 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Gopal Singh	JC-521275K	+11 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Rajender Kumar	JC-521421Y	1 st Nov 13
Nb Sub	Paras Ram	JC-521310F	+11 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			

Nb Sub	Duni Chand Thakur	JC-521382L	+16 th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 12 th Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Sarvan Singh	JC-521383N	+11 th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 16 th Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Bhupinder Singh	JC-521123H	+16 th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 25 th Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Randhir Singh	JC-521355F	+21 st Dec 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Vipan Kumar	JC-521384W	+27 th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Ved Prakash	JC-521389P	+11 th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Prakam Chand	JC-521390K	+18 th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Halku Ram	JC-521391M	+14 th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Raj Kumar	JC-521461A	1 st Dec 13
Nb Sub	Jai Mal Singh	JC-521448W	+21 st Dec 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Ashwani Kumar	JC-521392P	+27 th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 3 rd Dec 13 without effect on Pay & Allowances.			
To be Sub Maj			
Sub	Rajesh Kumar	JC-520364W	1 st Jul 13
Sub	Kuldeep Singh	JC-520492N	1 st Aug 13
Sub	Ranjit Singh	JC-520393L	+2 nd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
To be Sub			
Nb Sub	Chain Singh	JC-521147M	+12 th Oct 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 28 th May 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Subhash Chand	JC-521252H	+13 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Roop Singh	JC-521365L	+9 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Narender Singh	JC-521487P	+14 th Oct 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Gopal Singh	JC-521100F	+17 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jul 13 without effect on Pay & Allowances.			

Nb Sub	Ravinder Singh Negi	JC-521221H	+14 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Aug 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Som Raj	JC-521075N	1 st Sep 13
Nb Sub	Munshi Ram	JC-521092N	+5 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Sep 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Joginder Singh	JC-521179P	+25 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Sep 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Shamsher Singh	JC-521201P	+18 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Sep 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Chuni Lal	JC-521297H	+14 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Sep 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Raj Mal	JC-521298L	+14 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Sep 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Naresh Kumar Sunta	JC-521345X	+29 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Sep 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Avtar Singh	JC-521273Y	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 2 nd Sep 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Beli Ram	JC-521065K	+25 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 3 rd Sep 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Manohar Lal	JC-521052M	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Madan Lal	JC-521142N	+2 nd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Rachhpal Singh	JC-521103P	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Amar Singh	JC-521135X	1 st Oct 13
Nb Sub	Prem Chand Thakur	JC-521214M	+23 rd Oct 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Bhagat Ram	JC-521231M	+23 rd Oct 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Rattan Chand	JC-521361P	1 st Oct 13
Nb Sub	Rachhpal Singh	JC-521362X	1 st Oct 13
Nb Sub	Suresh Kumar	JC-521363A	1 st Oct 13
Nb Sub	Om Raj Sharma	JC-521364H	1 st Oct 13
Nb Sub	Rakesh Kumar	JC-521049M	+12 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Kishori Lal	JC-521101K	1 st Nov 13
Nb Sub	Subash Chander	JC-521180K	+8 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			

Nb Sub	Ravi Kumar	JC-521202X	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Budhi Singh	JC-521241W	+7 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Ram Lal	JC-521276M	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Parmodh Singh	JC-521293M	+12 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Man Singh	JC-521327P	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Anil Kumar	JC-521314X	+7 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Desh Raj Thakur	JC-521328X	+7 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Raj Kumar	JC-521342K	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Hira Singh	JC-521343M	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Ravi Kant	JC-521373K	+5 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Balwan Singh	JC-521374M	+3 rd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Tribhuwan Singh	JC-521375P	+3 rd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Bal Chand	JC-521376X	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Kushal Singh	JC-521377A	+3 rd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Raj Kumar	JC-521378H	+3 rd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Kamal Kishor	JC-521380A	+3 rd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			

To be Sub Maj

Sub	Pyare Lal	JC-520217N	+8 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 st Aug 13 without effect on Pay & Allowances.			
Sub	Data Ram Kashyap	JC-520618H	1 st Aug 13
Sub	Raj Kumar	JC-520468X	1 st Sep 13

To be Sub

Nb Sub	Dalip Singh Jaswal	JC-521338F	+31 st Aug 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Mar 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Vir Chand	JC-521045W	+24 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st May 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Dharam Chand	JC-520895N	+5 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Surender Kumar	JC-520913L	+8 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Ramesh Chand	JC-520918K	+2 nd Jul 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Hem Singh	JC-521002F	+19 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Uttam Chand	JC-521006X	+17 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Rajinder Singh	JC-521149X	+7 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Rajender Singh Rathor	JC-521196P	+23 rd Aug 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Parbhat Singh	JC-521210W	+19 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Gian Chand	JC-521366N	+24 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Ram Singh	JC-521486M	+31 st Aug 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Shiv Chand	JC-521004M	+5 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jul 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Paras Ram	JC-521062W	+29 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 11 th Jul 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Ashwinder Kumar	JC-521140H	+24 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 21 st Jul 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Dine Ram	JC-521047F	+9 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Aug 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Bachan Lal Sharma	JC-521038A	+7 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Aug 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Nettar Chand	JC-521195M	+11 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Aug 13 without effect on Pay & Allowances.			

Nb Sub	Surender Singh	JC-521091L	+2 nd Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Sep 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Desh Raj	JC-521129K	+5 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Sep 13 without effect on Pay & Allowances.			
To be Sub Clerk (SD)			
Nb Sub/Clk	Bagul Anna Ram Chandra	JC-520840K	+13 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 10 th Jul 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub/Clk	Anil Kumar	JC-520996F	1 st Aug 13
Nb Sub/Clk	Mohammed Izhar Shariff	JC-521011H	+5 th Oct 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 13 without effect on Pay & Allowances.			
To be Sub Maj			
Sub	Jayoti Prakash, SM	JC-520661K	+3 rd Oct 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 13 without effect on Pay & Allowances.			
Sub	Jayoti Prakash Sharma	JC-520141Y	+3 rd Dec 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Dec 13 without effect on Pay & Allowances.			
Sub	Mohan Singh	JC-520280H	1 st Dec 13
To be Sub			
Nb Sub	Pawan Singh	JC-521010A	+30 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Sep 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Ragbinder Singh	JC-521111N	+26 th Oct 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Sukh Dev Raj	JC-521162F	+26 th Oct 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Ram Nath	JC-521197X	+20 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Oct 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Manjit Singh Jamwal	JC-520926H	+25 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Ravinder Singh	JC-520971P	+2 nd Dec 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Shambhu Datt	JC-521191W	1 st Nov 13
Nb Sub	Ashwani Kumar Rana	JC-521207W	1 st Nov 13
Nb Sub	Devender Kumar	JC-521208Y	1 st Nov 13
Nb Sub	Ashok Kumar	JC-521242Y	+4 th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Hem Chand	JC-521213K	+29 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Anoop Singh	JC-521232P	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			

Nb Sub	Balak Ram	JC-521245N	+19 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Pawan Kumar Choudhary	JC-521277P	+20 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Krishan Chand	JC-521278X	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Tilak Raj	JC-521295X	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Subhash Chander	JC-521317L	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Balwinder Singh Choudhary	JC-521331X	1 st Nov 13
Nb Sub	Biri Singh	JC-521353W	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Bhupender Singh	JC-521379L	+2 nd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Nov 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Parmjit Singh	JC-521504K	1 st Dec 13
To be Sub Clerk (SD)			
Nb Sub/Clk	Muraleedharan CK	JC-521032K	1 st Nov 13
Nb Sub/Clk	Gaikwad Sanjay Kashinath	JC-521039H	1 st Nov 13
Nb Sub/Clk	Vinod Kumar	JC-521060L	1 st Nov 13
Nb Sub/Clk	Nareshwar Saharia	JC-521079K	1 st Nov 13
Nb Sub/Clk	Vinod Kumar	JC-521080Y	1 st Nov 13
To be Sub Maj			
Sub	Suresh Kumar	JC-519613X	+2 nd May 13
+Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 st May 13 without effect on Pay & Allowances.			
Sub	Jagdeep Singh	JC-520293A	+3 rd Jul 13
+Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 st Jul 13 without effect on Pay & Allowances.			
Sub	Rakesh Bhardwaj	JC-520352F	1 st Jul 13
Sub	Jaswant Singh	JC-520369P	+2 nd Jul 13
+Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 st Jul 13 without effect on Pay & Allowances.			
Sub	Harbans Lal	JC-520437X	+4 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 st Jul 13 without effect on Pay & Allowances.			
Sub	Jai Karan	JC-520456H	1 Jul 13
Sub	Sunil Kumar	JC-520195A	22 Jul 13
To be Sub			
Nb Sub	Amarjit Singh	JC-521450N	+17 th Jul 12
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jan 13 without effect on Pay & Allowances.			

Nb Sub	Raj Kumar	JC-520956A	+23 rd May 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st May 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Jeewan Kumar	JC-520831H	+22 nd Jun 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Praveen Singh	JC-520916Y	+22 nd Jun 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Jit Singh	JC-520997K	+26 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Kamlesh Kumar	JC-520998M	+22 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Bua Ditta	JC-521005P	+22 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Neel Kumar	JC-521009L	+9 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Romesh Chander	JC-521061N	+2 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Sardari Lal	JC-521083M	+6 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Vipan Kumar, SM	JC-521334L	+27 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Ashwani Kumar	JC-521360M	+28 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Surinder Singh Rana	JC-521488X	+20 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 2 nd Jun 13 without effect on Pay & Allowances.			
Nb Sub	Swaroop Chand	JC-521502Y	1 st Jul 13

To be Subedar Major (Religious Teacher)

Subedar/ Religious Teacher (Pandit) Sidhnath Tirpathi	JC-160677K	1 st Mar 2013
Subedar/ Religious Teacher (Pandit) Surya Prakash Tiwari	JC-164331X	1 st Mar 2013
Subedar/Religious Teacher (Pandit) Ramayan Prasad	JC-164332A	+13 rd Mar 2013
+Granted seniority in the rank of Subedar Major with effect from 1 st Mar 2013 without effect on Pay & Allowances.		
Subedar/Religious Teacher (Pandit) Tilak Raj Sharma	JC-164330P	+7 th May 2013
+Granted seniority in the rank of Subedar Major with effect from 1 st May 2013 without effect on Pay & Allowances.		

To be Subedar (Religious Teacher)

Naib Subedar/Religious Teacher (Pandit) JC-519457Y +9th Jun 2013
Bharatjee Dwivedi

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.

Naib Subedar/ Religious Teacher (Pandit) JC-519458F +3rd Jun 2013
Mohan Nath Tiwari

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Jun 13 without effect on Pay & Allowances.

To be Sub

Nb Sub Rajesh Kumar JC-521057L +9th Feb 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Dec 12 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Jagir Singh JC-521068X +26th Feb 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Feb 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Narinder Kumar JC-521121X +11th Feb 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Feb 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Onkar Singh JC-521291F +9th Feb 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Feb 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Devinder Singh JC-521292K +22nd Feb 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Feb 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Suraj Parkash, SM JC-520929W 1st Mar 13

To be Sub Clerk (SD)

Nb Sub/Clk Kunwar Surya PS Bhaduria JC-520992L 1st Mar 13

To be Sub

Nb Sub Devi Chand JC-521326M +30th Jan 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Nov 12 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Keshav Ram JC-521046Y +3rd Dec 12

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Dec 12 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Jai Singh JC-521066M +21st Feb 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Feb 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Uttam Singh JC-521120P +18th Feb 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Feb 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Bhag Dev Rathaur JC-521172L +12th Apr 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Feb 13 without effect on Pay & Allowances.

Nb Sub Babinder Singh Guleria JC-521288F +25th Feb 13

+Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Feb 13 without effect on Pay & Allowances

Nb Sub Pardeep Chandel JC-521286W 14th Mar 13

To be Sub Clerk (SD)

Nb Sub Jitendra Singh JC-520972X 1st Feb 13

Nb Sub/Clk Subash Yadav JC-520991H 1st Mar 13

To be Nb Sub

Hav Hoshiyar Singh	(3998890X Now JC-521641H)	+22 nd Mar 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 26 th May 12 without effect on pay and allowances.		
Hav Ashwani Kumar	(3990737M Now JC-521642L)	+1 st Mar 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 8 th Jul 12 without effect on pay and allowances.		
Hav Jugal Kishore	(3990822P Now JC-521643N)	+28 th Feb 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 23 rd Sep 12 without effect on pay and allowances.		
Hav Dhir Mal	(3992664K Now JC-521644W)	+7 th Mar 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20 th Dec 12 without effect on pay and allowances.		
Hav Jagroop Singh	(3990569Y Now JC-521645Y)	+25 th Feb 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Feb 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Swaroop Singh	(3992843K Now JC-521646F)	+12 th Apr 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Feb 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Daler Singh	(3989016W Now JC-521647K)	+2 nd Mar 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Rajeev Kumar	(3990320M Now JC-521648M)	+14 th Mar 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Parkash Chand	(3990333K Now JC-521649P)	14 th Mar 13

To be Nb Sub Clerk (SD)

Hav/Clk Ram Bishun Yadav	(3992648M Now JC-521650K)	1 st Mar 13
--------------------------	---------------------------	------------------------

To be Nb Sub

Hav Rakesh Chand	(3989919N Now JC-521651M)	+28 th Mar 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 3 rd Feb 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Kuldip Singh	(3991135L Now JC-521652P)	+10 th Apr 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 17 th Feb 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Ravinder Kumar	(3991177X Now JC-521653X)	+10 th Apr 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 19 th Feb 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Varinder Singh	(3990612P Now JC-521654A)	+21 st Mar 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20 th Feb 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Arjun Singh	(3992863X Now JC-521655H)	+22 nd Apr 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 25 th Feb 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Jagdish Kumar	(3989030H Now JC-521656L)	+20 th Apr 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Ravi Kumar	(3990526K Now JC-521657N)	+18 th Apr 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 7 th Mar 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Onkar Singh	(3990650L Now JC-521658W)	+18 th Apr 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 23 rd Mar 13 without effect on pay and allowances.		

Hav Surender Pal	(3989059L Now JC-521659Y)	+18 th Apr 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Apr 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Kamlesh Kumar	(3991198N Now JC-521660N)	+10 th Apr 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Apr 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Tarsam Jab	(3989892F Now JC-521661W)	+1 st May 13
Hav Gesar Chand	(3991208M Now JC-521662Y)	1 st May 13
Hav Narainder Singh	(3991230X Now JC-521663F)	1 st May 13
Hav Satish Kumar	(3991263H Now JC-521664K)	+7 th May 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Sanjeev Singh	(4003065X Now JC-521666P)	+21 st May 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 30 th Dec 12 without effect on pay and allowances.		
Hav Joginder Singh	(3990921X Now JC-521667X)	+21 st Apr 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 5 th Mar 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Ravi Kumar Saini	(3990313W Now JC-521668A)	+17 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 28 th Apr 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Pawan Kumar	(3992907K Now JC-521669H)	+24 th May 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 28 th Apr 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Sushil Chand Katoch	(3991352F Now JC-521670X)	+20 th May 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 29 th Apr 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Dilbag Singh	(3988941M Now JC-521671A)	+20 th May 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Pamil Kumar	(3990926W Now JC-521672H)	1 st May 13
Hav Rajinder Singh	(3990170F Now JC-521673L)	1 st May 13
Hav Chain Singh	(3990985H Now JC-521674N)	1 st May 13
Hav Vinod Kumar	(3989928P Now JC-521675W)	1 st May 13
Hav Iqbal Singh	(3990138M Now JC-521676Y)	+21 st May 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 9 th May 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Gurbax Singh	(3988954K Now JC-521677F)	+17 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Balwan Singh	(3990725X Now JC-521678K)	+8 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
To be Nb Sub Clerk (SD)		
Hav/Clk Kamaljit Singh	(3992788Y Now JC-521665M)	1 st May 13
To be Nb Sub		
Hav Amarjeet Singh	(3991140W Now JC-521680F)	+12 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 13 without effect on pay and allowances.		

Hav Ravinder Singh	(3992911M Now JC-521681K)	+18 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Kuldeep Singh	(3989780F Now JC-521682M)	+13 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 25 th May 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Subh Karan Singh	(3394439W Now JC-521683P)	+22 nd Jun 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Anil Kumar	(3989788N Now JC-521684X)	+6 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Ajmer Singh	(3988906K Now JC-521685A)	+22 nd Jun 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Mohinder Singh	(3990687M Now JC-521686H)	+28 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Sanjay Parmar	(2990372M Now JC-521687L)	+26 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Jagjit Singh	(2990392A Now JC-521688N)	+26 Jun 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Kabal Singh	(3184311N Now JC-521689W)	+29 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Baldev Singh	(3989918L Now JC-521690L)	+1 st Jun 13
Hav Mangal Singh Manhas	(3991405P Now JC-521691N)	+24 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Jagdish Kumar	(3992947L Now JC-521692W)	+14 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Nasib Singh	(3991269K Now JC-521693Y)	+20 th Jun 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 2 nd Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Vipin Kumar	(3989790L Now JC-521694F)	+15 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 26 th Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Ajay Singh	(3991278L Now JC-521695K)	1 st Jul 13
Hav Rajesh Kumar	(3991316W Now JC-521696M)	+9 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 13 without effect on pay and allowances.		
To be Nb Sub Clerk (SD)		
Hav/Clk Harshan TK	(3992789F Now JC-521679M)	1 st Jun 13
To be Nb Sub		
Hav Madan Lal	(3990210X Now JC-521697P)	+21 st Aug 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 28 th Oct 12 without effect on pay and allowances.		
Hav Gobind Ram	(3991115X Now JC-521698X)	+30 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 th Apr 13 without effect on pay and allowances.		

Hav Kewal Singh	(3991123W Now JC-521699A)	+21 st Aug 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 27 th Apr 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Jagdish Singh	(3991116A Now JC-521700K)	+29 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 18 th May 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Young Bahadur	(3991138Y Now JC-521701M)	+29 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 18 th May 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Chaman Lal Chauhan	(2990591N Now JC-521702P)	+9 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Balbir Singh	(3990152Y Now JC-521703X)	+19 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Sansar Singh	(3991142F Now JC-521704A)	+29 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Manjit Singh Bhadwal	(3990990N Now JC-521705H)	+8 Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Rajinder Singh	(3991163X Now JC-521706L)	+29 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 10 th Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Rajinder Singh	(3991439H Now JC-521707N)	+29 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Rajeshwar Singh	(3989131W Now JC-521708W)	+5 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 8 th Jul 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Jai Karn	(13619031M Now JC-521709Y)	+5 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 11 th Jul 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Raj Keshiv	(3990851K Now JC-521710N)	+21 Aug 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 19 th Jul 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Virender Singh, SM	(3995684H Now JC-521711W)	+24 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 21 st Jul 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Inder Jeet	(3990284M Now JC-521712Y)	+14 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Madan Gopal	(3989227Y Now JC-521713F)	+5 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Ramesh Kumar	(3989795K Now JC-521714K)	+7 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 2 nd Aug 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Manjit Singh	(3989809Y Now JC-521715M)	+7 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 5 th Aug 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Chaman Lal	(3991102A Now JC-521716P)	+2 nd Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Dilbag Singh	(3990438N Now JC-521723L)	+5 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 10 th Jun 13 without effect on pay and allowances.		

Hav Yashwant Singh	(3990447P Now JC-521724N)	+5 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Raj Kumar	(3993032L Now JC-521725W)	+5 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 22 th Jul 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Surinder Singh	(3990636Y Now JC-521726Y)	+5 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Kishori Lal	(3990287A Now JC-521727F)	1 st Sep 13
To be Nb Sub Clerk (SD)		
Hav/Clk Surender Kumar	(3992791Y Now JC-521717X)	+20 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 10 th Jul 13 without effect on pay and allowances.		
Hav/Clk Ravinder Kumar	(3992981L Now JC-521718A)	+23 th Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 10 th Jul 13 without effect on pay and allowances.		
Hav/Clk Ashok Kumar	(3993225L Now JC-521719H)	+31 st Jul 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 10 th Jul 13 without effect on pay and allowances.		
Hav/Clk B Jagga Rao	(3993347P Now JC-521720X)	+2 nd Aug 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 13 without effect on pay and allowances.		
Hav/Clk Sanjay Kumar Patyail	(3993211L Now JC-521721A)	1 st Aug 13
Hav/Clk Kaulage Tanaji Bhanudas	(3993581L Now JC-521722H)	1 st Aug 13
To be Nb Sub		
Hav Parshotam Lal	(3989595N Now JC-521728K)	+13 th Aug 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Hukam Chand	(3990992Y Now JC-521729M)	+7 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Varinder Kumar	(3991418M Now JC-521730F)	+14 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 26 th Jul 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Prakash Chand	(3991425H Now JC-521731K)	+14 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Santokh Singh	(3989687A Now JC-521732M)	+18 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Pradeep Kumar	(3989787L Now JC-521733P)	+18 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Pardeep Singh	(3990589M Now JC-521734X)	1 st Sep 13
Hav Rajesh Kumar Guleria	(3991151H Now JC-521735A)	1 st Sep 13
Hav Tek Chand	(3991209P Now JC-521736H)	+11 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 13 without effect on pay and allowances		
Hav Prakash Chand	(3991228A Now JC-521737L)	1 st Sep 13
Hav Chet Ram Chauhan	(3991445W Now JC-521738N)	+14 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 13 without effect on pay and allowances.		

Hav Beas Dev Thakur	(3991449M Now JC-521739W)	+12 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Shiv Kumar	(3991107Y Now JC-521740L)	+5 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 2 nd Sep 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Sikinder Singh	(3990289L Now JC-521741N)	+25 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 3 rd Sep 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Balwant Singh, SM	(3996293K Now JC-521742W)	+28 th Sep 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 6 th Sep 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Tarsem Singh	(3991515K Now JC-521743Y)	+5 th Oct 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 11 th Sep 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Garjan Singh	(3989870H Now JC-521744F)	+23 rd Oct 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 14 th Sep 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Sham Lal	(3990015A Now JC-521745K)	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 15 th Sep 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Tarsem Lal	(3989899L Now JC-521746M)	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 15 th Sep 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Karam Singh	(3989873W Now JC-521747P)	+23 rd Oct 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Vishwa Mitter	(3990038F Now JC-521748X)	+23 rd Oct 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Santosh Kumar Rana	(3990109X Now JC-521749A)	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Kuldeep Chand	(3990900F Now JC-521750P)	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Gurbax Singh	(3991114P Now JC-521751X)	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Kamal Kumar	(3990456W Now JC-521752A)	+23 rd Oct 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Sher Singh Chandel	(3991575Y Now JC-521753H)	+26 th Oct 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Parveen Singh	(3991711K Now JC-521754L)	+26 th Oct 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Bansi Lal	(2990710Y Now JC-521755N)	+12 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Daulat Singh	(3991262A Now JC-521756W)	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Dhan Dev	(3991290M Now JC-521757Y)	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		

Hav Sukhvir Singh	(3990458F Now JC-521758F)	+3 rd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Hem Raj	(3990586Y Now JC-521759K)	+3 rd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Hans Raj	(4361328P Now JC-521760Y)	+3 rd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Balwinder Singh	(3990391N Now JC-521761F)	+3 rd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Subhash Chand	(3991384K Now JC-521762K)	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Kumer Chand	(3991683H Now JC-521763M)	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Sukh Ram	(3991705W Now JC-521764P)	+6 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Gurdayal Singh	(3991185W Now JC-521765X)	+3 rd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Rajesh Kumar	(3991190F Now JC-521766A)	+3 rd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Omkar Singh	(3990444F Now JC-521767H)	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Vijay Kumar	(3991455A Now JC-521768L)	+7 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Sukhvinder Thakur	(3991464F Now JC-521769N)	+7 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Malkit Singh, SM	(3990531P Now JC-521770H)	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Manoj Kumar	(3991441A Now JC-521771L)	1 st Nov 13
Hav Kamal Kishore	(3989695Y Now JC-521772N)	1 st Nov 13
Hav Ashwani Kumar	(3990759L Now JC-521773W)	+16 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Kishor Kumar	(3991523H Now JC-521774Y)	+26 th Oct 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Daljeet Singh	(3991594K Now JC-521775F)	+26 th Oct 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Anand Kumar	(3991020X Now JC-521776K)	+18 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		

Hav Warrinder Kumar	(3991609F Now JC-521777M)	+26 th Oct 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Balak Ram Thakur	(3990367X Now JC-521778P)	+13 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Manohar Lal	(3990312N Now JC-521779X)	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Rajesh Kumar	(3990560K Now JC-521780M)	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Vinod Kumar	(3990837X Now JC-521781P)	+16 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Krishan Lal Rathour	(3990831W Now JC-521782X)	+4 th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Rakesh Kumar	(3991636L Now JC-521783A)	1 st Nov 13
Hav Subhash Chand	(3990642M Now JC-521784H)	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Sat Paul	(3990224X Now JC-521785L)	+23 rd Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Davinder Singh	(3990726A Now JC-521786N)	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Jogender Paul	(3990996P Now JC-521787W)	+4 th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Maghar Singh	(3991715A Now JC-521788Y)	1 st Nov 13
Hav Vinod Kumar	(3991734L Now JC-521789F)	+19 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Anil Kumar	(3990755P Now JC-521790W)	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Harnek Singh	(3990860L Now JC-521791Y)	+10 th Nov 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 13 without effect on pay and allowances.		
Hav Tarsaim Singh	(3991729A Now JC-521792F)	1 st Dec 13
To be Nb Sub Clerk (SD)		
Hav/Clk Dinesan K	(3993616W Now JC-521793K)	+11 th Oct 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 13 without effect on pay and allowances.		
Hav/Clk Laxmidhar Pradhan	(3992334L Now JC-521794M)	1 st Nov 13
Hav/Clk Chandra Narayan Tiwari	(3992532W Now JC-521795P)	1 st Nov 13

Hav/Clk Baban Thakur (3994280N Now JC-521796X) 1st Nov 13

Hav/Clk Har Narayan Gaur (3994729L Now JC-521797A) 1st Nov 13

To be Nb Sub

Hav Jai Lal (3989842W Now JC-521798H) +9th Nov 13

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Sep 13 without effect on pay and allowances.

Hav Ranjeet Singh (3991010N Now JC-521799L) +29th Nov 13

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Sep 13 without effect on pay and allowances.

Hav Mahender Singh (3990358W Now JC-521800P) +29th Nov 13

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 9th Oct 13 without effect on pay and allowances.

Hav Raj Kumar (3990416P Now JC-521801X) +30th Nov 13

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24th Oct 13 without effect on pay and allowances.

Hav Kashmira (3990825H Now JC-521802A) +29th Nov 13

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Nov 13 without effect on pay and allowances.

Hav Med Ram Sharma (3990834K Now JC-521803H) +29th Nov 13

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Nov 13 without effect on pay and allowances.

Hav Gagan Raj (3991356X Now JC-521804L) +2nd Dec 13

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Nov 13 without effect on pay and allowances.

Hav Sishpal Singh, SC (3989713W Now JC-521805N) +4th Dec 13

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 8th Nov 13 without effect on pay and allowances.

Hav Parveen Chander (3990436H Now JC-521806W) +11 Dec 13

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 12th Nov 13 without effect on pay and allowances.

Hav Rajesh Kumar (3990454L Now JC-521807Y) +11th Dec 13

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 16th Nov 13 without effect on pay and allowances.

Hav Subhash Kumar (3989877M Now JC-521808F) +2nd Dec 13

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 17th Nov 13 without effect on pay and allowances.

Hav Ashwani Kumar (3989539P Now JC-521809K) +21th Dec 13

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24th Nov 13 without effect on pay and allowances.

Hav Ramesh Singh (2990806F Now JC-521810Y) +16th Dec 13

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 25th Nov 13 without effect on pay and allowances.

Hav Subhash Chand (3990672K Now JC-521811F) +11 Dec 13

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Dec 13 without effect on pay and allowances.

Hav Sanjay Kumar (3991752N Now JC-521812K) +7th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Dec 13 without effect on pay and allowances.

Hav Ranjeet Singh (3990871X Now JC-521813M) +24th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Dec 13 without effect on pay and allowances.

Hav Shakti Chand (3990924L Now JC-521814P) +24th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Dec 13 without effect on pay and allowances.

Hav Roshan Lal (3990638K Now JC-521815X) +11 Dec 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 3rd Dec 13 without effect on pay and allowances.

Hav Pawan Kumar (3990582H Now JC-521816A) +30th Dec 13
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 15th Dec 13 without effect on pay and allowances.

VN RAVEENDRAN
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in